

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2014—आश्विन 24, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

अधि. 81 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम, कटनी, जिला कटनी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

| क्र. (1) | वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2) | कुल वार्ड (3) | आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4) |
|-------------|--|------------------|--|
| 1 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 06 | 05 राम मनोहर लोहिया वार्ड 12 सावरकर वार्ड 15 आचार्य विनोवा भावे वार्ड 32 कावसजी वार्ड 33 फारेस्टर वार्ड 43 महाराणा प्रताप वार्ड |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 03 | 02 प्रस्तावित नवनिर्मित वार्ड 27 मदन मोहन चौबे वार्ड 29 बाबू वंशस्वरूप वार्ड |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 11 | 16 रफी अहमद किदवई वार्ड 17 प्रस्तावित नवनिर्मित वार्ड 18 प्रस्तावित नवनिर्मित वार्ड |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----|---|
| | | 22 | गुरूनानक वार्ड |
| | | 31 | रामनिवास सिंह वार्ड |
| | | 36 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड |
| | | 37 | स्वामी विवेकानंद वार्ड |
| | | 39 | बाबा नारायण शाह वार्ड |
| | | 40 | अमर शहीद हेमू कलानी वार्ड |
| | | 41 | आचार्य कृपलानी वार्ड |
| | | 42 | संत कवरराम वार्ड |
| 4 | अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 03 | 05 राम मनोहर लोहिया वार्ड 12 सावरकर वार्ड 15 आचार्य विनोवा भावे वार्ड |
| 5 | अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 02 प्रस्तावित नवनिर्मित वार्ड 29 बाबू वंशस्वरूप वार्ड |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड | 06 | 31 राम निवास सिंह वार्ड 36 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 37 स्वामी विवेकानंद वार्ड 39 बाबा नारायण शाह वार्ड 41 आचार्य कृपलानी वार्ड 42 संत कवर राम वार्ड |
| 7 | महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड. | 12 | 04 इन्दिरा गांधी वार्ड 08 जालपा देवी वार्ड 09 महात्मा गांधी वार्ड 10 जयप्रकाश वार्ड 11 जग मोहनदास वार्ड 20 शिवाजी वार्ड 21 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 23 रघुनाथगंज वार्ड 25 बल्लभ दास अग्रवाल वार्ड 26 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 28 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 45 रविन्द्रनाथ टैगोरवार्ड |

अधि. 82 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, कैमोर, जिला कटनी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

| क्र. (1) | वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2) | कुल वार्ड (3) | आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4) |
|-------------|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 01 | 06 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----|--|
| 2 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 03 | 05 गांधी नगर वार्ड 07 बरापार वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 04 | 02 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 04 राजीव नगर वार्ड 11 इंदिरा गांधी वार्ड 13 लोहिया नगर वार्ड |
| 4 | अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | — | 00 — |
| 5 | अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 07 बरापार वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 02 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 11 इंदिरा गांधी वार्ड |
| 7 | महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड. | 04 | 01 पनिहाई वार्ड 08 इंदिरा नगर वार्ड 09 सुभाष वार्ड 12 पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड |

अधि. 83 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, बरही, जिला कटनी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

| क्र. (1) | वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2) | कुल वार्ड (3) | आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4) |
|-------------|--|------------------|--|
| 1 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 03 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 06 जवाहरलाल नेहरू वार्ड |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 02 महाराणा प्रताप वार्ड 09 महात्मा गांधी वार्ड |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 04 | 07 शहीद भगत सिंह वार्ड 08 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 11 इंदिरा गांधी वार्ड 12 विवेकानंद वार्ड |
| 4 | अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 01 | 06 जवाहरलाल नेहरू वार्ड |
| 5 | अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 01 | 09 महात्मा गांधी वार्ड |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----|---|
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 08 लालबहादूर शास्त्री वार्ड 12 विवेकानंद वार्ड |
| 7 | महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड. | 04 | 04 चंद्रशेखर वार्ड 10 मौलाना आजाद वार्ड 14 शिवाजी वार्ड 15 राजीव गांधी वार्ड |

अधि. 84 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, विजयराघवगढ़, जिला कटनी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

| क्र. (1) | वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2) | कुल वार्ड (3) | आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4) |
|-------------|---|------------------|---|
| 1 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 03 | 01 नेताजी सुभाष वार्ड 04 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 15 शारदा देवी वार्ड |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 01 | 13 मौलाना आजाद वार्ड |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 04 | 02 पचमठा वार्ड 06 संकट मोचन वार्ड 11 राजा सरयू प्रसाद वार्ड 12 हनुमान प्रसाद वार्ड |
| 4 | अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 01 नेताजी सुभाष वार्ड 15 शारदा देवी वार्ड |
| 5 | अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 00 | 00 — |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 02 पचमझ वार्ड 06 संकट मोचन वार्ड |
| 7 | महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड. | 04 | 03 इंदिरा गांधी वार्ड 07 महात्मा गांधी वार्ड 09 भगत सिंह वार्ड 14 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड |

अधि. 86 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

| क्र. (1) | वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया है (2) | संख्या (3) | आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4) |
|-------------|---|---------------|---|
| 1 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 12 | 10 ईदगाह हिल्स 28 रानी अवन्ती बाई |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----|---|
| | | | 49 आशा निकेतन 53 बरकतउल्ला 76 छोला 81 कान्हा कुंज 11 बाबू जगजीवन राम 47 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 48 अरेरा कालोनी 50 भरत नगर 59 बरखेड़ा बी. एच. ई. एल. 63 गौतम बुद्ध |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 26 डॉ. अम्बेडकर 85 कटारा |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 21 | 1 महात्मा गांधी 2 एयरपोर्ट 3 भौरी 6 महावीर गिरी 8 रायल मार्केट 15 जे. पी. नगर 21 जैन मंदिर 33 पं. मदन मोहन मालवीय 44 सुभाष चन्द्र बोस 52 मिसरोद 4 हेमू कालानी 9 बाग मुंशी हुसैन खां 25 स्वामी विवेकानन्द 32 जवाहरलाल नेहरू 36 चांदबड़ 37 कपड़ा मिल 42 महारानी लक्ष्मी बाई 43 महाराणा प्रताप 61 खजूरी कलां 65 गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र 69 गुरूनानक देव |
| 4 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड. | 06 | 11 बाबू जगजीवन राम 47 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 48 अरेरा कालोनी 50 भरत नगर 59 बरखेड़ा बी. एच. ई. एल. 63 गौदम बुद्ध |
| 5 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड. | 01 | 85 कटारा |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|-----|--|
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड. | 11 | 4 हेमू कालानी 9 बाग मुंशी हुसैन खां 25 स्वामी विवेकानन्द 32 जवाहरलाल नेहरू 36 चांदबड़ 37 कपड़ा मिल 42 महारानी लक्ष्मी बाई 43 महाराणा प्रताप 61 खजूरी कलां 65 गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र 69 गुरूनानक देव |
| 7 | महिलाओं के उक्त सरल क्रमांक (4), (5) एवं (6) के अतिरिक्त आरक्षित कुल वार्ड. | 24 | 5 साधू वासवानी 12 गुफा मंदिर 14 शाहजहांनाबाद 17 इब्राहिम गंज 19 लाल बहादुर शास्त्री 20 महावीर स्वामी 23 इस्लामपुरा 27 गोस्वामी तुलसीदास 30 कुशाभाऊ ठाकरे 35 जहांगीराबाद 41 बाग फरहत अफ़जा 46 पं. रविशंकर शुक्ल 51 शाहपुरा 55 बाग मुंगालिया 56 बरखेड़ा पठानी 57 साकेत शक्ति 58 कस्तूरबा 67 इन्द्रपुरी 70 पंजाबी बाग 75 बड़वई 77 रूसल्ली 78 नवीबाग 82 दामखेड़ा 84 रतनपुर सड़क |

अधि. 87 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका विदिशा, जिला विदिशा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

| क्र. (1) | वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2) | कुल वार्ड (3) | आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4) |
|-------------|---|------------------|--|
| 1 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 06 | 18 रानी दुर्गावती वार्ड 20 कस्तूरबा वार्ड |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-------|-------------------------------|
| | | | 25 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड |
| | | | 29 चंद्रगुप्त वार्ड |
| | | | 32 सम्राट अशोक वार्ड |
| | | | 34 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 01 | 36 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 10 | 26 डॉ. अम्बेडकर वार्ड |
| | | | 35 राजीव नगर वार्ड |
| | | | 16 दुर्गा वार्ड |
| | | | 39 तमोरिया एवं मिर्जापुर |
| | | | 19 महाराणा प्रताप वार्ड |
| | | | 17 इंद्रा वार्ड |
| | | | 15 गुरु नानक वार्ड |
| | | | 10 संत तुलसी वार्ड |
| | | | 21 सरोजिनी नायडू वार्ड |
| | | | 38 बैस वार्ड |
| 4 | अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 03 | 25 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड |
| | | | 29 चंद्रगुप्त वार्ड |
| | | | 32 सम्राट अशोक वार्ड |
| 5 | अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | निरंक | निरंक |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड | 05 | 17 इंद्रा वार्ड |
| | | | 10 संत तुलसी वार्ड |
| | | | 15 गुरुनानक वार्ड |
| | | | 19 महाराणा प्रताप वार्ड |
| | | | 38 बैस वार्ड |
| 7 | महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड. | 11 | 08 रसखान वार्ड |
| | | | 30 शहीद भगत सिंह वार्ड |
| | | | 06 महावीर स्वामी वार्ड |
| | | | 01 वैत्रवती वार्ड |
| | | | 14 गांधी वार्ड |
| | | | 31 चंद्रशेखर आजाद वार्ड |
| | | | 28 जवाहरलाल नेहरू वार्ड |
| | | | 03 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड |
| | | | 13 चाणक्य वार्ड |
| | | | 37 टीलाखेड़ी वार्ड |
| | | | 11 श्रृद्धानंद वार्ड |

अधि. 88 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, ब्यूँहारी, जिला शहडोल के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

| क्र. (1) | वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2) | कुल वार्ड (3) | आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4) |
|-------------|---|------------------|---|
| 1 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 02 महात्मा गांधी वार्ड 07 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 01 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 10 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 04 | 03 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 04 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 05 राजीव गांधी वार्ड 12 नेताजी सुभाष चन्द्र वार्ड |
| 4 | अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 01 | 02 महात्मा गांधी वार्ड |
| 5 | अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 01 | 10 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 03 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 12 नेताजी सुभाष चन्द्र वार्ड |
| 7 | महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड. | 04 | 06 इन्दिरा गांधी वार्ड 11 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 13 सरस्वती वार्ड 14 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड |

अधि. 89 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, खाँड, जिला शहडोल के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

| क्र. (1) | वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2) | कुल वार्ड (3) | आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4) |
|-------------|--|------------------|--|
| 1 | अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 01 | 02 इन्द्रा वार्ड |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 03 | 05 दुर्गावती वार्ड 07 आजाद वार्ड 14 रविशंकर प्रसाद वार्ड |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 04 | 01 बाणभट्ट वार्ड 06 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-------|--|
| | | | 08 सोनांचल वार्ड 12 राजीव वार्ड |
| 4 | अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | निरंक | निरंक |
| 5 | अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 07 आजाद वार्ड 14 रविशंकर वार्ड |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड | 02 | 01 बाणभट्ट वार्ड 06 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड |
| 7 | महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड. | 04 | 04 शास्त्री वार्ड 10 महात्मा गांधी वार्ड 11 लक्ष्मीबाई वार्ड 15 सुभाष वार्ड |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.